

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर 2014—भाद्र 25, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2013-तीन-न.पा.-955.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन, 2013-14 (उत्तरार्द्ध) में दिनांक 10 जून, 2014 को पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं:—

स. क्र.	नगरपालिका निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगरपालिका परिषद् नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर.	पार्षद	19	उन्नीस	श्री अंकित त्रिवेदी	भारतीय जनता पार्टी
2.	नगर परिषद् बैहर, जिला बालाघाट.	पार्षद	10	दस	श्रीमती राजकुमारी ईतवारी श्रीवात्री.	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.